



उद्धरण खतौनी




उद्धरण क्रमांक :
110957202503244

ग्राम क्रमांक : 110957 ग्राम का नाम (परगना) : जडौदा(सदर) तहसील : सदर जनपद : मुजफ्फर नगर
फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00167

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण भूमि का विवरण खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जौत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1392	करविन्दा इस्टेट एण्ड फाइनेन्स / प्रा०लि० / - व नीरगा इस्टेट एण्ड / इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० / - व ओमर फाइनेन्स एण्ड / लेजिंग		1411 फ०से	1392(1109571392000212)	0.0100			48.00



प्रा०लि० / राजरलं बिडिंग जोगेश्वरी मुबई पानिनी इस्ट एण्ड रियलिटी / प्रा०लि० / बालार्ड हाऊ स सेकन्ड पलोर बालार्ड इस्ट मुबई पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड / रियलिटी प्रा०लि० / - कसूरी रियलिटी / डवलपमेन्ट प्रा०लि० / - के शवा इस्ट एण्ड / रियलीयटी प्रा०लि० / किरीता रियलीटी एण्ड / फार्नेस प्रा०लि० / दुर्गानगर जोगेश्वरी लिंक रोड, मुबई निशीकान्ता इस्ट एण्ड / रियलीटी प्रा०लि० / . कू पा डवलपमेन्ट एण्ड रि० / प्रा०लि० / निरीपा इस्ट एण्ड रि० / प्रा०लि० /									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



निं:गाण 340/42 सेमुअल इस्टेट मुम्बई कु शा डवल0एण्ड रि0 / प्रा0लि0 / निरूपा रि0 एण्ड फाइ0 / प्रा0लि0 / ओलगा इस्टेट एण्ड / डवल0प्रा0लि0 / ओमकार रिपलिटी एण्ड / लिजिंग प्रा0लि0 / 25बखोरिया इस्टेट साममंदिर रोड गोरगाँव मुम्बई								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य एक शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भूराजस्व - चार आठ दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया


(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) राजस्व न्यायालय (नायब तहसीलदार) / T202409550106463 /12-08-2024 / विक्रय / ARVIND	1.1) ओमकार रिपलिटी एण्ड/लिजिंग	1392(1109571392000212)	1.1) - 1.2) - 1.3) -	1.1) न्यूमैक्स बिल्डटेक एल.एल.पी. एफ-37 सी, राधे मोहन ड्राईव असोला	1392(1109571392000212)	1.1) -



KUMAR SHARMA /19-03-2025

<p>प्रा०लि०/25बंखारि० इस्टेट राममंदिर रोड गोरगाँव मुम्बई (शेष क्षेत्रफल :-) 1.2) औलगा इस्टेट एण्ड/डवल०प्रा०लि०/ (शेष क्षेत्रफल :-) 1.3) करविन्दा इस्टेट एण्ड फाईनेन्स/प्रा०लि०/ (शेष क्षेत्रफल :-) 1.4) कस्तूरी रियलिटी/डवलपमेन्ट प्रा०लि०/- (शेष क्षेत्रफल :-) 1.5) किरीता रियलीटी एण्ड/फाईनेन्स प्रा०लि०/दुर्गानगर जोगेश्वरी लिंक रोड, मुम्बई (शेष क्षेत्रफल :-) 1.6) कु शा डवल०एण्ड रि०/प्रा०लि०/ (शेष क्षेत्रफल :-) 1.7) कु पा डवलपमेन्ट एण्ड रि०/प्रा०लि०/- (शेष क्षेत्रफल :-)</p>				

1.4) - फतेहपुर बैरा सावन पब्लिक
1.5) - स्कूल/एफ-55, वी.एक्स.एम.
1.6) - असोला होम्स नई दिल्ली
1.7) - द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश
1.8) - कुमार निवासी 1118 बार्ड नं०
1.9) - 11 हसनपुर पलवल हरियाणा
1.10) -
1.11) -
1.12) -
1.13) -
1.14) -
1.15) -



भागांश यानि 0.0660 हे० व अर्धांश यानि नवबरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल-2.8930 हे० से विक्रतागण करविन्दा एस्टेट एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व पानिनी एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व पानिनी उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व केशवा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व कृशा उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व निरुपा रिचलिटी एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व निशिकान्ता एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार एस्टेट एण्ड उवलपमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व नरीपा एस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार फाईनेन्स एण्ड लीजिंग बिष्ट व नरीपा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व यशोमित्रा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व यश उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व यमी रिचलिटी एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व सहारा सिटी होमस मुजफरनगर द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट निवासीगण 708/650 निकट प्राति विहार धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके केला एपस शीयलटक प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस ए-310 मेरठ माल, दिल्ली रोड मेरठ द्वारा पवन कुमार पुत्र स्व० कृपाल सिंह निवासी 253/2 इन्द्रा नगर मेरठ का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं०-15769 दिनांक 07.10.2022 अंकन-2.50.68.000/-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1436म/0.2640 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो। (96/171) इ०र०का० 01.03.23

5) 1430फ० आदेशानुसार तहसीलदार सदर द्वारा वाद सं० 988/T202309550101485 दिनांक 15-02-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफरनगर के खाता सं० 167 के खसरा नं० 1397म/0.0610, 1401/0.4970, 1402/1/0.5430, 1402/2/0.4100, 1403म/0.0100, 1403म/0.0210, 1404/2.0590, 1410म/0.2430, 1416/0.6870, 1417/0.0310, 1418/2.0390, 1419/0.0040, 1419म/0.0100 कुल-13 किते रकबा-6.6150 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् कुल विक्रित क्षेत्रफल-5.0307 हे० से विक्रतागण करविन्दा एस्टेट एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व पानिनि एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व केशवा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व कृपा उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व निशिकान्ता एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व केशवा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व कृशा उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व निरुपा रिचलिटी एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व सहारा सिटी होमस मुजफरनगर द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट निवासीगण 708/650 निकट प्राति विहार धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके केला बिगानिया बिस्टटक प्रा०लि० द्वारा सुभित कुमार त्यागी पुत्र बिजेन्द्र कुमार त्यागी निवासी ग्राम मलीरा परगना व तहसील व जिला मुजफरनगर का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं०-15177 दिनांक 16.11.2022 अंकन-4.27.65.000/-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो। (98/172) इ०र०का० 01.03.23

6) 1430 फ० आदेशानुसार तहसीलदार सदर द्वारा वाद सं० 66/T202309550100907/27-02-23 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफरनगर के खाता सं० 167 के खसरा नं० 1397म/0.0200, 1398/0.0100, 1399/0.0510, 1398/1.9260, 1411/0.2050, 1400/0.0360, 1412/0.4600, 1413/0.0310, 1414/0.2380, 1424म/0.0310, 1415/0.7350, 1424म/0.0280, 1432/0.8320, 1413म/0.0200 हे० कुल-14 किते रकबा-4.6230 हे० कुल भाग से व खसरा नं० 1401/0.4970 हे० से भागांश यानि 0.3313 हे० व खसरा नं० 1410म/0.2430 हे० से भागांश यानि 0.0600 हे० व खसरा नं० 1436म/0.2640 हे० से भागांश यानि 0.0250 हे० कुल-3 किते रकबा-1.0040 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् सभी नबरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल-5.0393 हे० से विक्रतागण करविन्दा एस्टेट एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व पानिनी एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व केशवा एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व कृपा उवलपमेन्ट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व निशिकान्ता एस्टेट एण्ड रिचलिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व ओमकार रिचलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट व सहारा सिटी होमस मुजफरनगर द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बने सिंह बिष्ट निवासीगण 708/650 निकट प्राति विहार धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके केला ओकटस एस्टेटस प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस ए-310 मेरठ माल दिल्ली रोड मेरठ द्वारा पवन कुमार पुत्र स्व० कृपाल सिंह निवासी 253/2 इन्द्रा नगर मेरठ का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं०-15766 दिनांक 07.10.2022 अंकन-4.28.40.000/-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1401/0.4310, 1410म/0.2430, 1436म/0.2640 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो। (97/172) इ०र०का० 01-3-23

7) 1430फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 224/T202309550103739 दिनांक 14-06-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफरनगर के खाता सं० 167 के खसरा नं० 1436म/0.2640 हे० के भागांश यानि 0.0260 हे० व खसरा नं० 1469म/1.9700 हे० के भागांश यानि 0.9850 हे० व खसरा नं० 1467/0.1950 हे० के भागांश यानि 0.0500 हे० व खसरा नं० 1439/2/0.5240, 1439/3/0.4460, 1440/0.2660, 1454म/0.3510, 1454म/0.3510, कुल-5 किते रकबा-1.9380 हे० लगान-परतानुसार के यथोचित भाग से अर्थात् खाता सं० 167 के सभी नबरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल-



उद्धरण खतौनी



उद्धरण क्रमांक :
110957202503245

ग्राम क्रमांक : 110957 ग्राम का नाम (परगना) : जडौदा(सदर) तहसील : सदर जनपद : मुजफ्फर नगर
फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाला संख्या : 00167

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण भूमि का विवरण खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अस्तिम चार अंक) अथवा धैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भूराजस्व
1393	करविन्दा इस्टेट एण्ड फाइनेन्स / प्रा०लि० / व नीरगा इस्टेट एण्ड / इन्वैस्टमेन्ट प्रा०लि० / - व ओमर फाइनेन्स एण्ड / लेजिंग		1411फ०से	1393(1109571393000112)	0.0920			3.10



प्रा०लि० / राजरत्न बिल्डिंग जोगेश्वरी मुम्बई पानिनी इस्टेट एण्ड रियलिटी / प्रा०लि० / बालार्ड हाऊ स सेकन्ड फ्लोर बालार्ड इस्टेट मुम्बई पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड / रियलिटी प्रा०लि० / - कस्तूरी रियलिटी / डवलपमेन्ट प्रा०लि० /- के शवा इस्टेट एण्ड / रियलीयटी प्रा०लि० / किरीता रियलीटी एण्ड / फार्निस् प्रा०लि० / दुर्गानगर जोगेश्वरी लिंक रोड, मुम्बई निष्ठीकान्ता इस्टेट एण्ड / रियलीटी प्रा०लि० / . कृ पा डवलपमेन्ट एण्ड रि० / प्रा०लि० / निरीपा इस्टेट एण्ड रि० / प्रा०लि० /									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



नं०गण 340/42 सेमुअल इस्टेट मुम्बई कु शा डवल०एण्ड रि० / प्रा०लि० / निरूपा रि० एण्ड फाइ० / प्रा०लि० / ओलगा इस्टेट एण्ड / डवल०प्रा०लि० / ओमकार रिपलिटी एण्ड / लिजिंग प्रा०लि० / 25बखोरिया इस्टेट राममंदिर रोड गोरगाँव मुम्बई							
---	--	--	--	--	--	--	--

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य नौ दो शून्य (हैक्टेयर) कुल भूराजस्व - तीन दशमलव एक शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया


(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) राजस्व न्यायालय (नायब तहसीलदार) / T202409550106463 /12-08-2024 विक्रय / ARVIND	1.1) ओमकार रिपलिटी एण्ड/लिजिंग	1393(1109571393000112)	1.1) - 1.2) - 1.3) -	1.1) शून्य रूपसे 1.2) एल.एल.पी.एफ-37 सी, राधे मोहन ड्राइव असोला	1393(1109571393000112)	1.1) -



KUMAR SHARMA / 19-03-2025

प्रा0लि0/25बखौरपा	1.4) -		
इस्ट राममंदिर रोड	1.5) -	फतेहपुर बंस सावन पब्लिक	
गोरगाँव मुम्बई (शेष	1.6) -	स्कूल/एफ-55, वी.एक्स.एम.	
क्षेत्रफल :-)	1.7) -	असोला होम्स नई दिल्ली	
1.2) ओलागा इस्ट	1.8) -	द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश	
एण्ड/डवल0प्रा0लि0/	1.9) -	कुमार निवासी 1118 बार्ड नं0	
(शेष क्षेत्रफल :-)	1.10) -	11 हसनपुर पलवल हरियाणा	
1.3) करविन्दा इस्ट	1.11) -		
एण्ड	1.12) -		
फाइनन्स/प्रा0लि0/-	1.13) -		
(शेष क्षेत्रफल :-)	1.14) -		
1.4) कस्तूरी	1.15) -		
रियलिटी/डवलपमेन्ट			
प्रा0लि0/- (शेष			
क्षेत्रफल :-)			
1.5) किरीता			
रियलिटी			
एण्ड/फाइनन्स			
प्रा0लि0/दुर्गानगर			
जोगेश्वरी लिंक रोड,			
मुम्बई (शेष क्षेत्रफल :-)			
1.6) कुशा			
डवल0एण्ड			
रि0/प्रा0लि0/ (शेष			
क्षेत्रफल :-)			
1.7) कृपा			
डवलपमेन्ट एण्ड			
रि0/प्रा0लि0/ (शेष			
क्षेत्रफल :-)			



	<p>1.8) क शशा इस्टेट एण्ड/रियलीयटी प्रा0लि0/ (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>1.9) निरीपा इस्टेट एण्ड रि0/प्रा0लि0 /नि0गाण 340/42</p> <p>सेमुअल इस्टेट मुम्बई (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>1.10) निरूपा रि0 एण्ड फाइ0/प्रा0लि0/ (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>1.11) निशीकान्ता इस्टेट एण्ड/रियलीटी प्रा0लि0/ (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>1.12) पानिनी इस्टेट एण्ड</p> <p>रियलिटी/प्रा0लि0 /बालार्ड हाऊ स सेकन्ड फ्लोर बालार्ड इस्टेट मुम्बई (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>i.13) पानिनी डवलपमेन्ट</p> <p>एण्ड/रियलिटी प्रा0लि0/- (शेष क्षेत्रफल :-)</p> <p>1.14) व ओमर फाइनेन्स एण्ड/लेजिंग</p>		
--	--	---	--

प्रा०लि०/राजरत्न बिडिंगा जोगेश्वरी मुम्बई (शेष क्षेत्रफल : -) 1.15) व नीरगा इस्टेट एण्ड/इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि०/- (शेष क्षेत्रफल :-)				
---	--	--	--	--

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति (18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1411 फ०- आदेशानुसार श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय वाद सं० 1/2003-04 दिनांक 29-11-03 धारा 144 ग्राम जड़ौदा श्रीमति मन्जू रानी बनाम सरकार में आदेश हुआ कि ख०सं० 1454म/०.3510 है० ल० 17.30/- व ख०सं० 1454म/०.3510 है० ल० 17.30/- को धारा 144 के अन्तर्गत कृषिक भूमि

2) घोषित कि या जाता है ह०ले० 05-12-03

3) 1430 फ० आदेशानुसार तहसीलदार सदर द्वारा वाद सं० 984/T202309550101486 दिनांक 15-02-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम जड़ौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा नं० 1424म/०.3180, 1428/०.0390, 1429/2.1210, 1430/०.0380, 1431/०.3790, 1436म/०.2640, 1446/०.5770, 1447/1/०.8360, 1447/2/०.6970, 1449/०.0410, 1450/०.0920 है० कुल-11 किते

रकबा-4.9450 है० लगान-परतानुसार के भागांश से खाता सं० 651 के खसरा नं० 1445/०.0150, 1448/०.0230, 1452/०.3490 है० कुल-3 किते रकबा-0.3870 है० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् दोनो खातो से कुल विक्रित क्षेत्रफल-5.3320 है० से विकेलागण कराविन्दा एस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह व पानिनि एस्टेट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह व केशवा रियालिटी एण्ड एस्टेट सिंह व पानिनि डवलपमेन्ट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व कस्सरी रियालिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व निशिकान्ता एस्टेट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व किरिता रियालिटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० द्वारा निरूपा रियालिटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व कुशा डवलपमेन्ट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व निरूपा रियालिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व ओमार फार्डिनेन्स एण्ड सीडिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व ओमार रियालिटी एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व श्रीगा एस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व श्रीगा एस्टेट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व ओमकार रियालिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व ओमार फार्डिनेन्स एण्ड सीडिंग प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व ओमकार रियालिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व यशोविजा एस्टेट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व यश डवलपमेन्ट एण्ड रियालिटी प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व योगी रियालिटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट व सहारा सिटी होम्स मुजफ्फरनगर द्वारा आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवसीगण 708/650 निकट प्रागति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके केला प्रीसिपा विल्डेटेक प्रा०लि० द्वारा सुमित कुमार त्यागी पुत्र बिजेन्द्र कुमार त्यागी निवासी ग्राम मलीरा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर का नाम द्वारा पञ्जीकृत विक्रय पत्र सं०-17784 दिनांक 16.11.2022 अंकन-4.29.21.0000-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। केला व विकेला सहखातेदार दर्ज रहेगा। (95/171) ह०र०का० 01.03.23

4) 1430 फ० आदेशानुसार तहसीलदार सदर द्वारा वाद सं० 65/T202309550100906 दिनांक 27-02-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम जड़ौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा नं० 1433/०.5610, 1435/1.3720, 1434म/०.0410, 1434म/०.0030, 1451/०.8500 कुल-5 किते रकबा-2.8270 है० लगान-परतानुसार के कुल भाग से व खसरा नं० 1436म/०.2640 है० लगान-परतानुसार के

- पब्लिक स्कूल, एक.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 बार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 3751 दिनांक 28.02.2024 अंकन 3,59,99,200/-के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं 1427, 1420, 1406, 1410म में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (223/188) हंरंकां 29.04.24
- 13) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा बाद सं० 182/T202409550102677 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खला सं० 167 के खसरा सं० 1454/1.1075 हे० के भागांश व खसरा नं० 1436/0.2640 हे० के भागांश व 1425/2/0.2660 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1425/3/2.2150 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1425/3/2.3580 हे० लगान-परतानुसार के यथोचित भाग से अर्थात सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 3.6097 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व कस्तूरी रियलिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व किरीता रियलटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियोप्रा०लि० व निरूपा रियोप्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व ओमर फाडिनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रियो प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खासिज करके क्रेता ओपेसिसओपस रियलटी प्रा०लि० एक. 37सी. राधेमोहन ड्राईव फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, साऊथ वेस्ट दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 बार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4003 दिनांक 11.03.2024 अंकन 9,53,77,200/-के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1454, 1436 में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे।(225/189) हंरंकां 29.04.24
- 14) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा बाद सं० 181/T202409550102676 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खला सं० 167 के खसरा सं० 1469म/0.0280 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/0.0290 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/1.3925 हे० के भागांश व खसरा नं० 1425/3/2.3580 हे० के भागांश व खसरा नं० 1454/1.3270 हे० के भागांश व खसरा नं० 1439/1/1.8690 हे० के भागांश व खसरा नं० 1424म/0.2590 हे० के भागांश व खसरा नं० 1467/0.0975 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 3.0353 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व कस्तूरी रियलिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व किरीता रियलटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियोप्रा०लि० व निरूपा रियोप्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व ओमर फाडिनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रियो प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खासिज करके क्रेता ओपेसिसओपस रियलटी प्रा०लि० एक. 37सी. राधेमोहन ड्राईव फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, साऊथ वेस्ट दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 बार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4003 दिनांक 11.03.2024 अंकन 8,04,42,800/-के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1469म, 1425/3, 1454, 1439/1, 1424म, 1467 में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (224/188) हंरंकां 29.04.24
- 15) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा बाद सं० 180/T202409550102675 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खला सं० 167 के खसरा सं० 1380/0.4100 हे० के कुल भाग से व खसरा नं० 1384/0.7690 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1375/2/0.6250 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1376म/0.0200 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1385म/0.0300 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1387/1.1860 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1388/0.1730 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1383/1.1591 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1407/1/0.1460 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.4583 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व कस्तूरी रियलिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व किरीता रियलटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियोप्रा०लि० व निरूपा रियोप्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व ओमर फाडिनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रियो प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खासिज करके क्रेता आभासा रियल वेंचर एल. एल. पी. एक. 37सी. राधेमोहन ड्राईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, एक.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4491 दिनांक 12.03.2024 अंकन 3,78,95,550/-के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1407/1 में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (222/187) हंरंकां 29.04.24
- 16) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा बाद सं० 183/T202409550102678 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खला सं० 167 के खसरा सं० 1379/1/4/1.1433, 1379/1/5/1.4340, 1379/1/5म/1.2500, 1375/1/0.3890, 1379/1/7/0.4530 हे० लगान-परतानुसार के कुल भाग से अर्थात कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.6693 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व कस्तूरी रियलिटी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व किरीता रियलटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियोप्रा०लि० व निरूपा रियोप्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियलटी प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व ओमर फाडिनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रियो प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खासिज करके क्रेता न्यूमैक्स ब्लूहोम्स एल एल पी एक. 37सी. राधेमोहन ड्राईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, एक.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 बार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4001 दिनांक 11.03.2024 अंकन 3,96,89,050/-के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। (221/187) हंरंकां 29.04.24

17) 1431 फ० आदेशानुसार नापबल तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 138/T202409550102552 दिनांक 04-05-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडीदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1469म/1.5260 के भागशा 3280/15260 भाग यानि 0.3280 हे० खसरा न० 1453/0.3380 हे० लगान-परतानुसार के कुल भाग यानि 0.3380 हे० से अर्थात दोनो नबरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 0.6660 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्तूरी रियल्टी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व किराता रियल्टी एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व निरूपा रि०एण्ड फाईनेन्स प्रा०लि० व निर्शोकान्ता इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओतगा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिमिग प्रा०लि० व ओमकार रियल्टी एण्ड लिमिग प्रा०लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बचे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके केला सचिन चौधरी पुत्र हरबीर सिंह निवासी 568 नोर्प सविल लार्डन अंसारी रोड मुजफ्फरनगर का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 324/6 दिनांक 26.02.2024 अंकन 1.17.64.000/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा न० 1469म में केला व विक्रेता सहखातोदार दर्ज रहेंगे। (234/190) ह०र०का० 09.05.24

18) 1431 फ० आदेशानुसार उपजिलाधिकारी सदर मु०नगर द्वारा वाद सं० T202409550103015 आनन्द सिंह बिष्ट बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 38(2) अधि० उ०प्र०श०संहिता 2006 दिनांक 30.04.24 को आदेश हुआ कि ग्राम जडीदा की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 167 पर खसरा नम्बर 138म रकबा 0.0720 के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि 1388म रकबा 0.0720 हे० अंकित किया जाता है। (233/190) ह०र०का० 09.05.24

Data Digitally Signed by: ARVIND KUMAR SHARMA (REVENUE INSPECTOR)
दिनांक/समय/स्थान: 21-03-2025 02:41:40 तहसील : सदर
यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीवसी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा जटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: SHAILENDRA SHARMA तहसील : सदर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 21-03-2025 02:41:40
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी कावेरीपिकेशन <https://upbpu.lecth.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 110957202503184

ग्राम क्रमांक : 110957 ग्राम का नाम (परगना) : जडौदा(सदर) तहसील : सदर जनपद : मुजफ्फर नगर
फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00167

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश				
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अस्ति चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीव का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनिक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1409म	करविन्दा इस्टेट एण्ड फाइनेन्स / प्रा०लि० / व नीरगा इस्टेट एण्ड / इन्वैस्टमेन्ट प्रा०लि० / व ओमर फाइनेन्स एण्ड / लेजिंग प्रा०लि० / राजरत्न बिल्डिंग जोगेश्वरी मुम्बई पानिनी इस्टेट एण्ड रियलिटी / प्रा०लि० / बालार्ड हाऊ स सेकन्ड फ्लोर बालार्ड इस्टेट मुम्बई पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड / रियलिटी प्रा०लि० / -		1411फ०से	1409म(1109571409200212)	0.8260			27.90



<p>कस्तूरी रियलिटी / डवलपमेन्ट प्रा०लि० / - के शवा इस्टेट एण्ड / रियलीयटी प्रा०लि० / किरौली रियलीटी एण्ड / फाईनेन्स प्रा०लि० / दुर्गानगर जोगेश्वरी लिक रोड, मुम्बई निशीकान्ता इस्टेट एण्ड / रियलीटी प्रा०लि० /</p> <p>कृ पा डवलपमेन्ट एण्ड रि० / प्रा०लि० / - निरीपा इस्टेट एण्ड रि० / प्रा०लि० / नि०गण 340/42 सेमुअल इस्टेट मुम्बई कृ शा डवल०एण्ड रि० / प्रा०लि० / निरूपा रि० एण्ड फाइ० / प्रा०लि० / ओलगा इस्टेट एण्ड / डवल०प्रा०लि० / ओमकार रियलिटी एण्ड / लिजिंग प्रा०लि० / 25बखोरिया इस्टेट राममंदिर रोड गोरेगाँव मुम्बई</p>					
<p>कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव आठ दो छः शून्य (हेक्टयर) कुल भू-राजस्व - दो सात दशमलव नौ शून्य रुपये</p> <p>नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण</p> <p>(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक</p>	<p>खारिज किया गया</p> <p>(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अस्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)</p>	<p>(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड</p>	<p>(13) क्षेत्रफल (हे.)</p> <p>(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अस्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)</p>	<p>(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड</p>	<p>(16) क्षेत्रफल (हे.)</p>

पंजीकृत विक्रय पत्र स०-5017 दिनांक 13.04.2023 अंकन-4.05.00.000/-रू० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं०-1467, 1469म, 1441, 1452, 1455 व 1462 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो।
(132/177) हं०रं०कां० 27.06.2023

11) 1431 फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 899/T202309550112626 दिनांक 03-02-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1421/0.0410, 1408म/0.0310, 1381म/0.0190, 1390/0.3280, 1394/0.6350, 1396/1.8440, 1389/0.0510, 1391/0.0100 हे० कुल-8 कि० रे० रकबा-2.9590 हे० के कुल भाग यानि 2.9590 हे० व खसरा नं० 1397म/0.0610 हे० के यथोचित 305/610 भाग यानि 0.0350 हे० व खसरा नं० 1422/1.2490 हे० के भागांश यानि 0.1576 हे० व खसरा नं० 1409/0.6150 हे० के भागांश यानि 0.0036 हे० व खसरा नं० 1410म/0.2430 हे० के भागांश यानि 0.0050 हे० व खसरा नं० 1407/1/0.2050 हे० के भागांश यानि 0.0590 हे० से व खसरा नं० 1406/1.5040 हे० के भागांश यानि 0.0946 हे० से व खसरा नं० 1383/1.3310 हे० के भागांश यानि 0.1719 हे० व खसरा नं० 1380/0.4100 हे० के भागांश यानि 0.0163 हे० व खसरा नं० 1392/1.4230 हे० के भागांश यानि 0.1003 हे० से व खसरा नं० 1379/1/41.9590 हे० के भागांश यानि 0.8157 हे० व खसरा नं० 1388/0.1790 हे० लगान-परतानुसार के भागांश यानि 0.0060 हे० कुल-10 कि० रे० रकबाई-9.1180 हे० के भागांश यानि 1.4300 हे० से अर्थात् कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.4195 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० बालाई हाउस सेकण्ड फ्लोर बालाई इस्टेट मुम्बई व पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्त्री रियल्टी/डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलीयटी प्रा०लि० व किरीता रियलीटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० टुर्गानगर जोशेशरी लिंकरोड मुम्बई व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व निरूपा रियल्टी प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लेजिंग प्रा०लि० राजरल बिडिंग जोशरी मुम्बई व ओमकार रियलीटी एण्ड लेजिंग प्रा०लि० 25 बखीरिया रि०प्रा०लि० निवासीगण 340/42 सेमुअल इस्टेट मुम्बई व ओलागा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लेजिंग प्रा०लि० शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नम्बर 11 इस्टेट राममन्दिर रोड गोरगाँव मुम्बई व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बच्चे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्राति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता स्पार्कस्टोन रियल्टी एलएल०पी० राधेमोहन झाईव असोला फतेहपुर बेरी एक० 55 वी० एक्स० एम० असोला होम्स नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 19523 दिनांक 22.12.2023 अंकन 3.38.09.175/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1422, 1409, 1410म, 1407/1, 1406, 1383, 1380, 1392, 1379/14 व 1388 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो। (189/184) हं०रं०कां० 03.02.24

12) 1431 फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 174/T202409550102669 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1427/2.1720 हे० के भागांश व खसरा नं० 1420/1.1470 हे० के भागांश व खसरा नं० 1406/1.5040 हे० के भागांश व खसरा नं० 1410म/0.2430 हे० के भागांश व खसरा नं० 1426/0.0360 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1422/1.0914 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1409/0.6114 हे० के यथोचित भाग से अर्थात् सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.2352 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व पानिनी डवलपमेन्ट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्त्री रियल्टी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलीटी प्रा०लि० व किरीता रियलीटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रि०प्रा०लि० व निरूपा रि०एण्ड फार्डि०प्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियलीटी प्रा०लि० व नरीगा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलीटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बच्चे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्राति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता न्यूमेस बिड्ड होम्स एल एल पी एफ. 37सी, राधेमोहन झाईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, एक.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 3751 दिनांक 28.02.2024 अंकन 3.59.99.200/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1427, 1420, 1406, 1410म में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो। (223/188) हं०रं०कां० 29.04.24

13) 1431 फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 182/T202409550102677 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1454/1.1075 हे० के भागांश व खसरा नं० 1436/0.2640 हे० के भागांश व 1425/2.0.2660 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1425/3/2.2150 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1425/3/2.3580 हे० लगान-परतानुसार के यथोचित भाग से अर्थात् सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 3.6097 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्त्री रियल्टी एण्ड डवलपमेन्ट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियलीटी प्रा०लि० व किरीता रियलीटी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डवलपमेन्ट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलीटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड व नरीगा इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओलागा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलीटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बच्चे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्राति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता ओशिसओपस रियल्टी प्रा०लि० एक. 37सी, राधेमोहन झाईव फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, साऊथ वेस्ट दिल्ली 110074 द्वारा शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4003 दिनांक 11.03.2024 अंकन 9.53.77.200/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1454, 1436 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो।(225/189) हं०रं०कां० 29.04.24

14) 1431 फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 181/T202409550102676 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1469म/0.0280 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/0.0290 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/1.3925 हे० के भागांश व खसरा नं० 1425/3/2.3580 हे० के भागांश व खसरा नं० 1454/1.3270 हे० के भागांश व खसरा नं० 1439/1/1.8690 हे० के भागांश व खसरा नं० 1424म/0.2390 हे० के भागांश व खसरा नं० 1467/0.0975 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 3.0353 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलीटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बच्चे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्राति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता ओशिसओपस रियल्टी प्रा०लि० एक. 37सी, राधेमोहन झाईव फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, साऊथ वेस्ट दिल्ली 110074 द्वारा शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4003 दिनांक 11.03.2024 अंकन 9.53.77.200/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1454, 1436 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो।(225/189) हं०रं०कां० 29.04.24

14) 1431 फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 181/T202409550102676 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1469म/0.0280 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/0.0290 हे० के यथोचित भाग व खसरा नं० 1469म/1.3925 हे० के भागांश व खसरा नं० 1425/3/2.3580 हे० के भागांश व खसरा नं० 1454/1.3270 हे० के भागांश व खसरा नं० 1439/1/1.8690 हे० के भागांश व खसरा नं० 1424म/0.2390 हे० के भागांश व खसरा नं० 1467/0.0975 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 3.0353 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व ओमर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियलीटी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बच्चे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्राति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता ओशिसओपस रियल्टी प्रा०लि० एक. 37सी, राधेमोहन झाईव फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, साऊथ वेस्ट दिल्ली 110074 द्वारा शारद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नम्बर 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4003 दिनांक 11.03.2024 अंकन 9.53.77.200/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1454, 1436 में केला व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगो।(225/189) हं०रं०कां० 29.04.24



सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता न्यूमेक्स इम्प्रीटक एल एल पी एफ 37सी, राधेमोहन झूईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल,

एफ.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4005 दिनांक 11.03.2024 अंकन 8.04.42.800/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1469एम, 1425/3, 1454, 1439/1, 1424एम, 1467 में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (224/188) हं०रं०कां० 29.04.24

15) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 180/T202409550102675 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1380/0.4100 हे० के कुल भाग से व खसरा नं० 1384/0.7690 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1375/2/0.6250 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1376एम/0.0200 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1385एम/0.0300 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1387/1.1860 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1388/0.1730 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1383/1.1591 हे० के कुल भाग व खसरा नं० 1407/1/0.1460 हे० लगान-परतानुसार के भागांश से अर्थात् सभी नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.4583 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्सूरी रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड इन्वैस्टमेंट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व किराता रियल्टी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डेवलपमेंट एण्ड रिप्रॉप्रिअ्टि व निरूपा रि०एण्ड फार्डि०प्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व नरीगा इस्टेट एण्ड इन्वैस्टमेंट प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओलागा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाइनन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बबे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता आभारा रियल वेयर एल. एल. पी. एफ. 37सी, राधेमोहन झूईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, एफ.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4491 दिनांक 12.03.2024 अंकन 3.78.95.550/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1407/1 में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (222/187) हं०रं०कां० 29.04.24

16) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 183/T202409550102678 दिनांक 29-04-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1379/14 /1.1433, 1379/15/1.4340, 1379/15एम/1.2500, 1375/1/0.3890, 1379/17/0.4530 हे० लगान-परतानुसार के कुल भाग से अर्थात् कुल विक्रित क्षेत्रफल 4.6693 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व पानिनी डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्सूरी रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व किराता रियल्टी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डेवलपमेंट एण्ड रिप्रॉप्रिअ्टि व निरूपा रि०एण्ड फार्डि०प्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व नरीगा इस्टेट एण्ड इन्वैस्टमेंट प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओलागा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाइनन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियल्टी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व कुशा डेवल० एण्ड रि० प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बबे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता न्यूमेक्स ब्लूहोम्स एल एल पी एफ. 37सी, राधेमोहन झूईव असोला फतेहपुर बेरी, सावन पब्लिक स्कूल, एफ.55वी.एक्स.एम. असोला होम्स नई दिल्ली 110074 द्वारा शरद कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 1118 वार्ड नं० 11 हसनपुर पलवल हरियाणा का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 4001 दिनांक 11.03.2024 अंकन 3.96.89.050/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। (221/187) हं०रं०कां० 29.04.24

17) 1431 फं० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 138/T202409550102552 दिनांक 04-05-2024 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 167 के खसरा सं० 1469एम/1.5260 के भागांश 3280/15260 भाग यानि 0.3280 हे० व खसरा नं० 1453/0.3380 हे० से अर्थात् दोनो नम्बरो से कुल विक्रित क्षेत्रफल 0.6660 हे० से विक्रेतागण करविन्दा इस्टेट एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व पानिनी इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व पानिनी डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व कस्सूरी रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि० व केशवा इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व किराता रियल्टी एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व कृपा डेवलपमेंट एण्ड रि०प्रा०लि० व कुशा डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व निरूपा रि०एण्ड फार्डिनेन्स प्रा०लि० व निशीकान्ता इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० व नरीगा इस्टेट एण्ड इन्वैस्टमेंट प्रा०लि० व नरीपा इस्टेट एण्ड रि०प्रा०लि० व ओलागा इस्टेट एण्ड डेवल०प्रा०लि० व ओमर फाइनन्स एण्ड लिजिंग प्रा०लि० व ओमकार रियल्टी एण्ड लिजिंग प्रा०लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र बबे सिंह बिष्ट निवासी 708/650 प्रगति विहार धर्मपुर-1 देहरादून उत्तराखण्ड का नाम खारिज करके क्रेता सचिन चौधरी पुत्र हरबीर सिंह निवासी 568 नोर्थ सिविल लार्डिन अंसारी रोड मुजफ्फरनगर का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 324/6 दिनांक 26.02.2024 अंकन 1.17.64.000/-के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। खसरा नं० 1469एम में क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (234/190) हं०रं०कां० 09.05.24

18) 1431 फं० आदेशानुसार उपजिलाधिकारी सदर मु०नगर द्वारा वाद सं० T202409550103015 आनन्द सिंह बिष्ट बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 38(2) अधि० उ०प०रा०संहिता 2006 दिनांक 30.04.24 को आदेश हुआ कि ग्राम जडौदा की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 167 पर खसरा नम्बर 138एम रकबा 0.0720 के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि 1388एम रकबा 0.0720 हे० अंकित किया जाता है। (233/190) हं०रं०कां० 09.05.24

Data Digitally Signed by: ARVIND KUMAR SHARMA (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 12-03-2025 10:18:48 तहसील : सदर

यह उद्हरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटीय सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHAILENDRA SHARMA तहसील : सदर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-03-2025 10:18:48

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्हरण खतौनी का वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

